

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 15.09.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-07 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना तरबगंज पुलिस ने 02, थाना कटराबाजार पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 15.09.2022

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर के उ0नि0 राजेश कुमार दूबे द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त अर्जुन उर्फ पोके को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर में आम्स ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अर्जुन उर्फ पोके पुत्र केशवराम निवासी ग्राम बैजूलोनियनपुरवा मौजा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-219/22, धारा 3/25 आम्स ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ0नि राजेश कुमार दूबे मय टीमा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 15.09.2022

जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 08 अभियुक्त गिरफ्तार, 100 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने थाना क्षेत्र में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे 40 लीटर कच्ची शराब व मोटरसाइकिल बरामद, थाना खरगूपुर पुलिस ने 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना करनैलगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना धानेपुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।